

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 22, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 14-10-2019 से 18-10-2019 तक (5 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व दिनांक 12-10-2019 एवं 13-10-2019 तथा अवकाश पश्चात् दिनांक 19-10-2019 एवं 20-10-2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 2 दिसम्बर 2019

क्रमांक ई-01-01/2019/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सुबोध कुमार सिंह, भा.प्र.से. (1997), सचिव, श्रम विभाग तथा सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग एवं आयुक्त, श्रम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं पदेन राहत आयुक्त तथा आयुक्त, पुर्नवास व आयुक्त, भू-अभिलेख का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, मुख्य सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/1-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

2. श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009) द्वारा संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री व्ही. के. छबलानी (भारतीय दूरसंचार सेवा), विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल कॉरि.)/महिला एवं बाल विकास विभाग, केवल विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास के कार्यभार से मुक्त होंगे. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-5/तीन (दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2019/2549, दिनांक 28-11-2019 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-54-2/तीन (दो)/न.पा./समय कार्यक्रम/2019/2470, दिनांक 25-11-2019 (छायाप्रति संलग्न समय अनुसूची कार्यक्रम) अनुसार राज्य में होने वाले नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन दिसम्बर, 2019 संपन्न कराने के लिए दिनांक 21-12-2019 (शनिवार) को मतदान होगा तथा दिनांक 24-12-2019 को मतगणना कराया जाएगा.

2. अतः राज्य शासन एतद्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 21-12-2019 (शनिवार), को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एफ. केरकेट्टा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ 20-10/2007/11/(6).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम, विकास अधिनियम 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 एवं छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्नानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करती है :—

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आयुक्त/संचालक
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़. | — | अध्यक्ष |
| 2. उप महाप्रबंधक,
स्टेट बैंक आफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, रायपुर. | — | सदस्य |
| 3. श्री अरविन्द गर्ग,
अध्यक्ष, जिला उद्योग संघ, बिलासपुर. | — | सदस्य |
| 4. श्री राम गिडलानी,
सदस्य, छ.ग. राईस मिल एसोसिएशन, तिल्दा-नेवरा, रायपुर. | — | सदस्य |
| 5. श्री मनोहर लुनिया,
व्यवसायी, जगदलपुर, बस्तर. | — | सदस्य |
2. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 02 वर्ष का होगा.
 3. कोई भी सदस्य काउंसिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और तदुपरांत वह काउंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.
 4. काउंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.
 5. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर काउंसिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अवधारित की जायें.
 6. काउंसिल की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगी.
 7. काउंसिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य, काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेगा.
 8. काउंसिल की बैठक की गणपूर्ति काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी बैठक में गणपूर्ति न हो सके तो, ऐसी स्थिति में काउंसिल का अध्यक्ष बैठक के लिए कोई नई सूचना जारी करेगा.
 9. काउंसिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से निश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.
 10. काउंसिल इस आदेश के पैरा एक में वर्णित अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 1-10/2017/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम-1966 के नियम 6(ए) के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-3 में दर्शाई गई तिथि से वरिष्ठ वेतनमान भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूची-III के वेतन मैट्रिक्स के लेबल 11 (रु. 67,700-रु. 2,08,700) में नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की तिथि (3)
1.	श्री जाधव श्री कृष्णा ए.एन.एस., भा.व.से. (2014)	01-01-2018
2.	श्री पंकज राजपूत, भा.व.से. (2014)	11-07-2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार चौधरी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 अगस्त 2019

क्रमांक 2026/एफ-21/08/2019/13/2/ऊ.वि./प्रत्याभूति.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर की वर्किंग केपिटल की व्यवस्था के लिए राशि रुपये 800 करोड़ की कैश क्रेडिट की सुविधा के लिए बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2023 तक अर्थात् 05 वर्ष तक प्रदान करती है.

2. और चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01-01-2019 से प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले रुपये 800 करोड़ के वर्किंग केपिटल हेतु संबंधित बैंक/वित्तदायी संस्थान के मध्य राज्य शासन की गारंटी के निष्पादन हेतु वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जाना है,

3. अतएव छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2019 की कालावधि अर्थात् प्रथम वर्ष हेतु कंपनी के चालू देयताओं के भुगतान एवं प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था के लिए यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से पृथक-पृथक क्रमशः राशि रुपये 250 करोड़, 500 करोड़ एवं 50 करोड़ (अर्थात् कुल राशि 800 करोड़) की कैश क्रेडिट की सुविधा हेतु बिना प्रत्याभूति शुल्क भुगतान के राज्य शासन की गारंटी स्वीकृत की जाती है. तदनुसार संस्थावार कैश क्रेडिट की सीमा एवं गारंटी की अवधि निम्नवत् रहेगी :—

क्रमांक (1)	बैंक का नाम (2)	कैश क्रेडिट की सीमा (3)	गारंटी की अवधि (4)
1.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रुपये 250 करोड़	01-01-2019 से 31-12-2019 तक
2.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	रुपये 500 करोड़	
3.	ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स	रुपये 50 करोड़	
कुल		रुपये 800 करोड़	

4. ऊपर पैरा-2 एवं पैरा-3 में वर्णित राज्य शासन की गारंटी निम्न शर्तों के अधीन प्रभावशील रहेगी :—

4.1 शासन की प्रत्याभूति के प्रभावशील रहने की अवधि में वर्किंग केपिटल हेतु कैश क्रेडिट सुविधा का लाभ दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 31-12-2023 तक रहेगा.

- 4.2 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत आहरित वर्किंग केपिटल की राशि पर देय ब्याज के भुगतान की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संबंधित बैंकों में पृथक से निधियाँ (Fund) संधारित की जाएँ, ताकि ब्याज का भुगतान नियमित रूप से हो सके.
- 4.3 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स की बाध्यताओं के सुनिश्चित समय पर पालन का सम्पूर्ण दायित्व छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर रहेगा.
- 4.4 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से कैश क्रेडिट सुविधा अंतर्गत प्राप्त आहरित राशि के व्यय तथा जमा की गई राशि का विस्तृत लेखा रखा जायेगा और शासन की आवश्यकता पर इस हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
- 4.5 प्रथम वर्ष यथा 01-01-2019 से 31-12-2019 तक राज्य शासन की गारंटी के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स को धनराशि का भुगतान नियमित किया जाएगा एवं चूक होने पर इसकी जानकारी तत्काल राज्य शासन के संज्ञान में लायी जाएगी.
- 4.6 ऊपर पैरा-4.1 से पैरा 4.5 की शर्तों के अधीन यूनियन बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स से कैश क्रेडिट की सुविधा अंतर्गत राशि आहरण हेतु कंपनी के सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पर होगा.
- 4.7 राज्य शासन की प्रत्याभूति शुल्क मुक्त 05 वर्ष की गारंटी में से प्रथम वर्ष की गारंटी के उपयोग पश्चात् शेष 04 वर्ष अर्थात् कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी की चालू देयताओं के भुगतान एवं प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैंक/वित्तदायी संस्थाओं से कैश क्रेडिट की व्यवस्था के लिए प्रतिस्पर्धात्मक निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर पर यह सुविधा प्राप्त की जा सकेगी.
- 4.8 राज्य शासन की गारंटी के अधीन प्राप्त किए गए ऋण की सुविधा अंतर्गत आहरित राशि केवल वर्किंग केपिटल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है अतः आहरित राशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जा सकेगा और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा कैश क्रेडिट सुविधा हेतु पारित संकल्पों/निर्णयों/जारी किए जाए निर्देशों की जानकारी राज्य शासन को पृष्ठांकित की जाएगी.
- 4.9 राज्य शासन की गारंटी के अधीन अर्जित निधियों से वितरित ऋणों की वसूली एवं कालातीत होने की दशा में उसके तथ्य की विस्तृत एवं स्पष्ट सूचना यथाशीघ्र शासन को दी जाएगी.
- 4.10 राज्य शासन बिना पूर्व सूचना दिये, जो उचित एवं आवश्यक समझेगी, नवीन ऋण प्राप्त करने को तथा नवीन ऋणों के वितरण को निषिद्ध कर सकेगी.
- 4.11 राज्य शासन द्वारा 05 वर्ष की कालावधि के लिए स्वीकृत प्रत्याभूति शुल्क मुक्त गारंटी हेतु अन्य कोई शर्त अथवा शर्तें जिसे या जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा, आगे कभी भी अधिरोपित करने के लिए राज्य शासन सक्षम होगा.
- 4.12 प्रथम वर्ष अर्थात् कैलेण्डर वर्ष 2019 हेतु राज्य शासन की प्रत्याभूति हेतु परिशिष्ट-एक परिशिष्ट-दो एवं परिशिष्ट-तीन में संलग्न प्रारूप में गारण्टी डीड का निष्पादन करना आवश्यक है. तत्पश्चात् कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 हेतु गारंटी डीड पर ऊर्जा विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर गारंटी डीड का निष्पादन किया जा सकेगा.
- 4.13 शासन की प्रत्याभूति हेतु गारंटी डीड के निष्पादन हेतु ऊर्जा विभाग के भारसाधक सचिव की ओर से विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, विशेष सचिव.

UNION BANK OF INDIA

GUARANTEE FOR LINE OF CREDIT AND TERM LOAN

This Guarantee for Line of Credit and Term Loan entered
Between
The Guarantor (as defined hereafter)
AND
The Bank (as defined hereafter)

ARTICLE 1 PREAMBLE

WHEREAS

The Bank has Sanctioned/agreed to Sanction the credit facilities morefully described in Schedule 1 to this deed to the Borrower. The Guarantor, in consideration of the Bank agreeing to Sanction Credit Facilities to the Borrower, has agreed to Guarantee all the obligations of the Borrower, towards the Bank under or in connection with Credit Facilities.

NOW IN CONSIDERATION OF THE PREMISES THE GUARANTOR AGREES AS FOLLOWS :

ARTICLE - 2 DEFINITIONS

As used throughout the Body of this Agreement, the following terms shall have the following meaning assigned to them below. References to singular shall include references to plural and vice versa, and the following terms shall include all grammatical variations thereof.

- 2.1 'Account' means Account or Accounts opened or to be opened and kept by the Bank for the purpose of recording all or any transaction(s) in respect of Credit Facilities sanctioned or to be Sanctioned to the Borrower.
- 2.2 'Bank' means Union Bank of India, a Banking Company constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and having its Head Office at 239 Vidhana Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 and Branch Office among other places all over India at - UNION BANK OF INDIA LILYCHOWK BRANCHRAIPUR, CHHATTISHGARH hereunder, which expression shall include its Successors-in-interest and assigns unless repugnant to the context thereto.
- 2.3 'Borrower' means person or persons more fully described in Schedule II hereunder, which expression shall include its heirs, administrators, executors, Trustees, members, Survivor(s), Successors-in-interest and assigns as the case may be, unless repugnant to the context thereto.
- 2.4 'Guarantor' means person or persons more fully described in Part A of Schedule III hereunder which expression shall include the Guarantor's Heirs, legal representatives, executors, assigns, successors-in-interest as the case may be, unless repugnant to the context thereto.
- 2.5 All the terms used in this Agreement of Guarantee but not defined shall have the meaning assigned to them under the Facility Agreement dated 23.03.2016 executed by the Borrower.

ARTICLE - 3
OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR

- 3.1 **Guarantor guarantees due repayment of all liabilities of the Borrower on Demand** : The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally guarantees to the Bank due payment and due discharge, two days after demand in writing, of all liabilities of the Borrower, whether present, future or contingent under Credit Facilities together with interest as agreed between the Bank and Borrower.
- 3.2 **Guarantor guarantees due payment of all charges and costs** : The Guarantor hereby irrevocably and unconditionally guarantees to the Bank on demand, due payment or reimbursement of any/all charges, costs, expenses, including legal costs (being between Advocate and Client) and all such duties, taxes, insurance premia and other expenses, the Bank has incurred or may incur as a consequence of sanction of credit facilities to the Borrower and also as consequence of default of the terms, conditions and covenants Rupee Term Loan Agreement dated 23.03.2016, by the Borrower.
- 3.3 **Guarantor to be Principal Debtor for the liabilities of the Borrower** : The Guarantor hereby irrevocably agrees that for all the obligations of the Borrower, the Guarantor shall be primarily liable and the Guarantor's primary liability shall not be affected by any arrangement between the Borrower and the Bank.
- 3.4 **Guarantee to be continuing guarantee** : The Guarantor hereby irrevocably agrees that the guarantee given under these presents shall be continuing guarantee and shall not ordinarily be determined except with the consent of the Bank and only upon repayment of all liabilities by the Borrower to the Bank and the Bank giving written discharge to this effect.
- 3.5 **Guarantee not to be revoked or determined without prior notice** : The Guarantee shall not be revoked or determined unless three calendar months notice in writing of the intention to do so is given to the Bank and such revocation or determination shall take effect only after expiry of the period of notice and in the event of the Guarantor being a Company in liquidation, the liability of the Guarantor shall continue until the expiration of three calendar months notice in writing given to the Bank of the intention of the liquidator to determine this guarantee.
- 3.6 **Guarantee shall not be determined on the Insolvency or liquidation of the Borrower**: The guarantee shall not be determined on the insolvency or liquidation of the Borrower until the Bank gives written discharge.
- 3.7 **Guarantor's waiver of rights under the Law of Contract** : The Guarantor hereby expressly waives all the rights available under the Indian Contract Act, 1872 or any other law for the time being in force and further agrees that the Bank in its sole and absolute discretion and without any reference or notice to the Guarantor and without consent of the Guarantor, can renew, hold over any portion or whole of Credit Facilities give up any claim, remit the dues, compound, compromise any liabilities of the Borrower or enter into adjustment or vary the

terms and conditions with the Borrower in respect of Credit Facilities without in any way affecting the liability of the Guarantor under this guarantee.

- 3.8 **Guarantor's benefit to the Securities given by Borrower waived** : The Guarantor hereby agrees that the Guarantor's liability under this guarantee shall not in any way be reduced or discharged, by reason of the Bank losing or parting with the Securities given by the Borrower to the Bank.
- 3.9 **Guarantor's liability not dependent on the contract between the Bank and the Borrower** : The Guarantor hereby agrees that the liabilities incurred under these presents shall be independent of any contract or agreement between the Borrower and the Bank and discharge of the Borrower under any contract or agreement or Law or due to any act or omission of the Bank shall not, in any manner, affect the liabilities of the Guarantor under these presents.
- 3.10 **Guarantee for the ultimate balance** : This Guarantee shall be applicable to the ultimate balance due or that may become due to the Bank from the Borrower in respect of any or all Credit Facilities notwithstanding that any or all Account(s) pertaining to Credit Facilities may in the meantime, or at any time(s) have been in credit or may have disclosed or reduced to nil balance, and until repayment of such balance, the Bank shall be entitled to retain, realise, or otherwise dispose of in such manner as the Bank may think fit any Securities now or hereinafter held by the Bank and without affecting the liability of the Guarantor, until the ultimate balance is satisfied.
- 3.11 **Guarantor not to compete with Bank** : In the event of Insolvency, Bankruptcy or Winding up of the Borrower the Guarantor shall not prove in competition with Bank any rights or remedies accrued to him under these presents or under any security taken from the Borrower prejudicially affecting Bank's interest, till all the liabilities of the Borrower towards the Bank are discharged and completely satisfied.
- 3.12 **Guarantor to give Securities as agreed** : The Guarantor agrees to give in Bank's favour any or all securities as the Bank may direct to secure all or any of the liabilities under these presents.
- 3.13 **Monies realised from the Guarantor to be appropriated as provided below** : The Guarantor agrees that monies received from the guarantors and those realised on sale of Guarantor's securities shall be appropriated towards discharge of liabilities under this guarantee as follows.
- (i) Firstly, towards costs, charges and other expenses and other money due and payable or becoming due and payable to the Bank.
 - (ii) Secondly, towards interest.
 - (iii) Lastly, towards the principal amount.

- 3.14 **Bank's claim to be conclusive and binding** : The Bank's claim as to the amount due and payable under the guarantee shall be conclusive and binding on the Guarantor.
- 3.15 **Maximum liability of the Guarantor**: The maximum liability (excluding interest, costs, charges and expenses) of the Guarantor under this Guarantee shall not exceed the amount mentioned in Part B of Schedule III to this Guarantee.
- 3.16 **Guarantor's liability not to be affected by the Bank continuing to deal with the Borrower after determination of Guarantee** : In the event of this guarantee being determined by notice either by the Guarantor or by the Guarantor's successors with the consent in writing of the Bank or by liquidator or by demand in writing by the Bank, it shall be lawful for the Bank to continue the Account/s with the Borrower notwithstanding such determination, and the liability of the Guarantor or the Guarantor's successors for the amount due from the Borrower at the date when the Guarantee is so determined shall remain, notwithstanding any subsequent payment into or out of the Account by or on behalf of the Borrower.
- 3.17 **Guarantee shall be Security for the amounts outstanding in the accounts chosen at Bank's discretion** : Whenever the amount or amounts due from the Borrower exceed the limit for which the Guarantor is liable under this Guarantee, the Bank may if it thinks fit, elect in its sole and absolute discretion; which particular Accounts or items in respect of Credit Facilities shall be considered as exclusively secured by this Guarantee. And the Bank shall be at liberty at any time in case of the payment by the Guarantor of any of the moneys hereby guaranteed to apply to such accounts or items in respect of Credit Facilities and the liability of the guarantor shall continue in respect of other accounts and items of Credit Facilities.
- 3.18 **Any Security taken by Guarantor from the Borrower to be given to Bank**: The Guarantor further undertakes that any Security taken, or that may be taken by the Guarantor, from the Borrower in respect of the Guarantor's liability under this Guarantee, shall not be prejudicial to the Bank's rights and the Guarantor shall forthwith deposit such Security with the Bank.
- 3.19 **This Guarantee shall extend to all negotiable instruments in circulation**: This Guarantee shall be enforceable against the Guarantor notwithstanding any negotiable or other securities referred to herein or to which this Guarantee may extend or be applicable, shall at the time of enforcement of this Guarantee be outstanding or in circulation.

ARTICLE 4
ADDITIONAL COVENANTS OF THE GUARANTOR IN RESPECT
OF RUPEE TERM LOAN OF RS. 250.00 CRORES

4.1 **Guarantor to be Indemnifier:** In consideration of the Bank agreeing to sanction or having Credit Facilities to the Borrower, the Guarantor hereby covenants and undertakes.

- (a) To indemnify the Bank and keep the Bank fully indemnified and saved, defended and harmless in respect of and against each and every payment made and obligation, liability, loss or damage undertaken or incurred or suffered by the Bank (whether directly or indirectly) under or in connection with all or any part of the above said Credit Facilities or any renewal or extension or modification thereof.
- (b) To pay the Bank on demand all such sum or sums of money as the Bank may pay under or in connection with all or any part of above said Credit Facilities together with interest thereon at the rate/s agreed between the Bank and the Borrower from time to time, from the date on which the Bank so pays until repayment by the Guarantor.
- (c) Notwithstanding the possibility, existence, pendency or continuance of any disputes or differences or any arbitration proceedings or any suit or other legal proceedings whatsoever against the Borrower under or in connection with whole or any part of the above said Credit Facilities and/or between the Guarantor and the Bank which may directly or indirectly arise out of or under or in connection with the subject matter(s) of the above said Credit Facilities or which may affect the legality or validity of all or any of the transaction(s) directly or indirectly connected with or relating to or arising out of the subject matter(s) of above said Credit Facilities the reasonableness or propriety or validity of any such payment(s) made by the Bank to the insurers or the Government Authority or such persons to protect its interest in the security and in recovery of the all monies owed and payable in respect of Credit Facilities shall not be questioned by the Guarantor on any ground whatsoever and such payment shall be conclusive and binding on the Guarantor so far as it concerns the Guarantor's liability to the Bank hereunder.
- (d) To pay to the Bank on demand all costs, charges, and expenses including the legal costs (being between Advocate and client) paid or incurred by the Bank in any wise concerning whole or any part of above said Credit Facilities and the Bank's obligations and liability there under and concerning the presents hereunder and the Bank's rights in respect thereof.
- (e) That the Bank, two days after notice of demand for payment of the guaranteed amount under these presents on the guarantor shall be entitled without any further consent from the Guarantor to debit the account or accounts of the Guarantor at any of its Branches

(whether Loan or Cash Credit or Overdraft Savings or Current or Fixed or Short Deposit or any other Accounts by whatsoever name called with all or any monies the Bank pays or may pay under or in respect of whole or any part of above said Credit Facilities and the Bank's obligations there under.

ARTICLE - 5 **GENERAL**

- 5.1 **GUARANTOR NOT TO CREATE ANY ENCUMBRANCE** : The Guarantor hereby declares and assures that the Guarantor has not created in favour of any person (other than the Bank) any lien, charge, pledge, mortgage or other encumbrance over all or any of the Securities given by the Guarantor to the Bank and have not borrowed any monies against the said Securities from any such person. The Guarantor further undertakes that so long as the Guarantor continues to be indebted or liable to the Bank, the Guarantor shall not without the previous written consent of the Bank create or attempt to create in favour of any other person, lien, charge, pledge or encumbrance over any or all Securities.
- 5.2 **BANK MAY OPEN FRESH ACCOUNTS** : It is hereby agreed that, if the Guarantee ceases for any cause to be binding as a continuing Security on the Guarantor, the Bank may open a fresh Account or Accounts and continue any existing Account with the Borrower and no money paid into such Account and subsequently drawn out by the Borrower shall, on settlement of any claim under this guarantee be appropriated towards or have the effect of payment of any part of moneys due from the Borrower at the time of this guarantee ceasing to be so binding as continuing Security in the absence of a direction in writing to appropriate, given to the Bank by the person paying such money.
- 5.3 **ANY IRREGULARITY IN THE BORROWING POWERS OF THE BORROWER, NOT TO AFFECT THE GUARANTOR'S LIABILITY** : If the Borrower is a corporation or company or an unincorporated body or firm, the absence or informality of the Borrowing powers on the part of Borrower or any irregularity in the exercise thereof, shall not affect the liability of the Guarantor and any moneys due under any Sanctioned Credit Facility shall be deemed to be due and payable notwithstanding such absence or informality or irregularity and shall not affect the liabilities of the Guarantor under this guarantee.
- 5.4 **LIABILITY OF THE GUARANTOR NOT TO BE AFFECTED BY CHANGE IN THE CONSTITUTION OF BORROWER** : The liabilities under this guarantee shall not be affected by any change in the name or constitution of the Borrower.
- 5.5 **BORROWER TO BE AGENT OF THE GUARANTOR** : The Guarantor agrees that any acknowledgement by the Borrower on Guarantor's behalf of any or all liabilities and rights of the Bank against the Guarantor under this guarantee shall be deemed to be acknowledgement by the Guarantor and the Borrower for said purpose shall be deemed to be agent of the Guarantor.

- 5.6 **RIGHT TO COMBINE ACCOUNTS, RIGHT OF SET OFF AND APPROPRIATION RESERVED** : The Bank shall have right at any time after notice of demand for payment under these presents to the Guarantor, to combine or consolidate or divide into two or more any or all Guarantor's accounts with the Bank, and/or to set off or transfer and appropriate any sum or sums standing to the credit of any one or more of such accounts (including without limitation the right to set off and appropriate by premature closing of deposit accounts) in or towards satisfaction of the liabilities of the Guarantor on any other account or any other respect, whether such liabilities be actual, or contingent, and several or joint.
- 5.7 **INTERPRETATION** : The words used in singular shall be construed as plural wherever the context so requires. The articles and clauses of this Agreement of Guarantee are severable and any illegality or unenforceability of any article or clause shall not affect the validity or legality of other Article or Clauses.
- 5.8 **NOTICE OF DEMAND** : A Demand in writing shall be deemed to have been duly given to the Guarantor or the legal representatives of any of the Guarantor, by sending the same by post or by Fax, Telex or Telegram or other Mode of communication addressed to addressee at the address or addressees written in Part A of Schedule III and shall be effectual notwithstanding any change of residence or death and notwithstanding notice thereof to Bank, and such demand shall be deemed to be received by Guarantor or legal representatives of the Guarantor as the case may be, twenty four hours after posting/communication thereof and shall be sufficient if signed by any officer of the Bank, and in proving such service it shall be sufficient to prove that the letter containing the demand was properly addressed and put into the Post Office or other Office.
- 5.9 **BENEFIT OF THIS GUARANTEE** : The Guarantor hereby agrees that this Guarantee shall ensure the benefit of the Bank's successors-in-interest and assigns.
- 5.10. **GOVERNING LAW AND JURISDICITON:** The Governing Law for the purpose of this guarantee shall be Indian Law and the Indian Courts have exclusive jurisdiction with respect to any matter under this guarantee.

SCHEDULE I

DESCRIPTION CREDIT FACILITIES

<u>Nature of Facilities</u>	<u>Limits</u>	<u>Rate of Interest</u>	<u>Commission</u>
Cash Credit(H/BD) (w/w inland revolving LC/LG)	Rs 250.00 Crore	One Year MCLR	NIL

SCHEDULE II
DESCRIPTION OF BORROWER

I. Where the Borrower is a Company :

- a. Name : Chhattisgarh State Power
Distribution Company
Limited (CSPDCL)
- b. Address of Registered Office : Vidyut Sewa Bhavan,
Danganiya, Raipur 492001
- c. Address of Principal place or : Vidyut Sewa Bhavan,
Business/Works, as the case Danganiya, Raipur 492001
may be
- d. Permanent Account Number : AADCC6047K
as allotted by Income Tax
Department

SCHEDULE III
DESCRIPTION OF GUARANTOR

PART - A

- a. Name: Mr. M S Ratnam, Special Secretary, Energy Department, Govt. of Chhattisgarh. Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur, Atal Nagar.
- b. Address of Registered Office: Energy Department, Govt. of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nawa Raipur, Atal Nagar.
- c. Address of Principal place : As above or Business/Works, as the case may be
- d. Permanent Account Number : as allotted by Income Tax Department

Address for notice: Energy Department, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, Chhattisgarh(C.G)

PART - B

Maximum Liability of Guarantor : Rs. 250.00 Crore
from 01.01.2019 to 31.12.2019
(exclusive of interest thereon)

IN WITNESS WHEREOF the Guarantor has executed this Agreement of Guarantee on this day of August 2019 at Naya Raipur.

.....
Signature and Seal

NOTE : This agreement is not to be attested

FORM C.4**(DEED OF GUARANTEE FOR OVERALL LIMIT)**

This Deed of Guarantee made on the 16th day of August Two thousand and Nineteen
by

Government of Chhattisgarh, represented by Special Secretary, Government of Chhattisgarh (hereinafter unless otherwise specifically designated referred to as "the Guarantors" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include in so far as the company is concerned its successors and permitted assigns and in so far as the others are concerned their respective heirs, executors, administrators and legal representatives) in favour of STATE BANK OF INDIA, a body-corporate constituted under the State Bank of India Act, 1955, and having its Corporate Centre at State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021 and one of its Local Head Offices at Mid Corporate Regional Office, 5, Y.N.Road, Indore and amongst other places a branch at Commercial Branch,, 2nd Floor, Pujari Chambers, Pachpedi Naka, Raipur - 492001 (hereinafter unless otherwise specifically designated referred to as "the Bank" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and assigns).

WHEREAS in terms of an Agreement of Loan executed by CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED, a company within the meaning of the Companies Act, 1956, and having its registered office at Vidyut Sewa Bhawan, Dangania, Raipur, Chhattisgarh - 492013 (hereinafter referred to as "the Borrower" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its successors and permitted assigns) with the Bank of the other Part on 19th day of July, 2016 as modified and/or extended by Supplemental Agreement dated the 12th day of June, 2019 executed between the Borrower and the Bank (hereinafter collectively referred to as "the said Agreement of Loan") the Bank has agreed to finance the business of the Borrower by granting all or some or any of the credit facilities or the Bank has agreed to continue the credit facilities now being enjoyed by the Borrower and the Bank has also agreed not to sue the Borrower in respect of all or some or any of the credit facilities either in Indian or foreign currencies by way of overdrafts, demand loans, loans, cash credits (by way of pledge lock and key type, factory type or mundry type or by way of hypothecation or in any other form including working capital term loan), term loans (including funding of interest or in any other form granted as part of rehabilitation packages), pre-shipment and post-shipment credits, opening of letters of credits, issuing of guarantee including deferred payment guarantees and indemnities negotiations and discounting of demand and/or usance bills and cheques inland as well as foreign and such other facilities as may be agreed upon from time to time between the Bank and Borrower for sums not exceeding in the aggregate the sum of Rs.600,00,00,000/- (Rs. Six hundred crore only) (hereinafter referred to as "the aforesaid credit facilities") on the terms and conditions specified and contained therein.

AND WHEREAS one of the conditions specified and contained in the said Agreement of Loan is that the Borrower shall procure and furnish to the Bank a guarantee guaranteeing due payment by the Borrower of the said (Fund Based Working Capital limit) sum of Rs.500,00,00,000/- (Rs. Five hundred crore only) (hereinafter for the sake of brevity referred to as "the principal sum") together with interest costs charges expenses and/or other monies due to the Bank in respect of or under the aforesaid credit facilities or any of them on demand by the Bank.

AND WHEREAS the Guarantees at the request of the Borrower and in consideration of the Bank having agreed to grant or granted at the request of the Guarantors the aforesaid credit facilities to the Borrower have agreed to execute this Guarantee in favour of the Bank on the terms and in the manner hereinafter appearing.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in consideration of the above premises it is hereby covenanted and agreed (the Guarantors covenanting and agreeing jointly and severally) as follows:

1. If at any time default shall be made by the Borrower in payment of the principal sum (not exceeding Rs.500,00,00,000/- (Rs. Five hundred crore only) together with interest, costs, charges, expenses and/or other monies for the time being due to the Bank in respect of or under the aforesaid credit facilities or any of them the Guarantors shall forthwith on demand pay to the Bank the whole of such principal sum (not exceeding Rs.500,00,00,000/- (Rs. Five hundred crore only) together with interest, costs, charges, expenses and/or any other monies as maybe then due to the Bank in respect of the aforesaid credit facilities and shall indemnify and keep indemnified the Bank against all losses of the said principal sum, interest or other monies due and all costs charges and expenses whatsoever which the Bank may incur by reason of any default on the part of the Borrower.
2. The Guarantors agree and confirm that interest shall be charged on the outstanding in the account(s) opened in respect of the aforesaid credit facilities at such rate(s) as may be determined by the Bank from time to time and in such rate is linked to the MCLR obtaining at the particular time, any revision in the MCLR shall correspondingly change the effective rate of interest on such account from the date of such revision. Interest shall be calculated respectively on the daily balance of such account(s) and be debited thereto on the last working day of the month or quarter according to the practice of the Bank. The Bank shall also be entitled to charge as its own discretion such enhanced rates of interest on the account(s) either on the entire outstanding or on a portion thereof as it may fix for any irregularity and for such period as the irregularity continues or for such time as the Bank deems it necessary regard being had to the nature of the irregularity and the charging of such enhanced rate of interest shall be without prejudice to the Bank's other rights and remedies.
3. The Bank shall have the fullest liberty without affecting this Guarantee to vary the amounts of the individual limits of the aforesaid credit facilities as may be agreed upon from time to time between the Bank and the Borrower subject to the aggregate thereof not exceeding the principal sum and/or to postpone for any time or from time to time enforce or forbear to enforce any remedies of securities available to the Bank of its liberty with reference to the matters aforesaid or any of them or by reason of time being given to the Borrower or of any other forbearance act or omission on the part of the Bank or any other indulgence by the Bank to the Borrower or by any other matters or things whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have the effect of so releasing the Guarantors.
4. As the aforesaid credit facilities have been further secured by hypothecation and /or pledge of the Borrower's movable properties and / or mortgage of the Borrower's immovable properties under separate security documents executed by the Borrower with the Bank which security documents would contain stipulations as to insurance assignment and delivery of Insurance Policy to the Bank the margin or value of properties to be maintained and the periodical furnishing of different statements to the Bank and other matter the Guarantor agree that no failure in requiring or obtaining such security or in the observance or performance of any of the stipulations or terms of the

said security documents and no default of the Bank in requiring or enforcing the observance or performance of any of the said stipulations or terms shall have the effect or releasing or discharging or in any manner affecting the liability of the Guarantors under these presents.

5. The Bank shall be at liberty to take in addition to the subsisting securities any other securities for the aforesaid credit facilities or any of them or any part thereof and to release or forbear to enforce all or any of the remedies upon or under such securities and any collateral security or securities now held by the Bank and that no such release or forbearance as aforesaid shall have the effect of releasing or discharging or in any manner affecting the liability of the Guarantors under the Guarantee and that the Guarantors shall have no right to the benefit of the said security and / or any other security that may be held by the Bank until the claims of the Bank against the Borrower in respect of the aforesaid credit facilities and of all (if any) other claims of the Bank against the Borrowers on any other account whatsoever shall have been fully satisfied and then in so far only as such security shall not have been exhausted for the purpose of realising the amount of the Bank's claims and rateably only with other Guarantor or other persons (if any) entitled to the benefit of such securities respectively.
6. The Guarantee herein contained shall be enforceable against the Guarantors notwithstanding the securities aforesaid or any of them or any other collateral securities that the Bank may have obtained or may obtain from the Borrower or any other person shall at the time when proceedings are taken against the Guarantors hereunder be outstanding and/or not enforced and or remain unrealised.
7. In order to give effect to the Guarantee herein contained the Bank shall be entitled to act as if the Guarantors were principal debtors to the Bank for all payments guaranteed by them as aforesaid to the Bank.
8. The guarantee herein contained is a continuing one for all amounts advanced by the Bank to the Borrower in respect of or under the aforesaid credit facilities as also for all interest costs and other monies which may from time to time become due and remain unpaid to the Bank thereunder and shall not be determined or in any way be affected by any account or accounts opened or to be opened by the Bank becoming nil or coming into credit at any time or from time to time or by reason of the said account or accounts being closed and fresh account or accounts being opened in respect of fresh facilities being granted within the overall limit sanctioned to the Borrower.
9. Notwithstanding the Bank's rights under any security which the Bank may have obtained or may obtain the Bank shall have fullest liberty to call upon the Guarantors to pay the principal sum not exceeding Rs.500,00,00,000/- (Rs. Five hundred crore only) together with interest as well as the costs (as between advocate and client) charges and expenses, and /or other monies for the time being due to the Bank in respect of or under the above mentioned credit facilities or any of them without requiring the Bank to realise from the Borrower the amount due to the Bank in respect of the above mentioned credit facilities and /or requiring the Bank to enforce any remedies or securities available to the Bank.
10. The Guarantee herein contained shall not be determined or in any way prejudiced by any absorption of or by Bank or by any amalgamation thereof or therewith but shall ensure and be available for and by the absorbing or amalgamated Bank or concern.

11. The Guarantee shall be irrevocable and enforceable against the Guarantors notwithstanding any dispute between the Bank and the Borrower.
12. The Guarantors affirm confirm and declare that any balance confirmation and/or acknowledgment of debt and /or admission of liability given or promise or part payment made by the Borrower or the authorised agent of the Borrower to the Bank shall be deemed to have been made and /or given by or on behalf of the Guarantors themselves and shall be binding upon each of them.
13. The Guarantors shall forthwith on demand made by the Bank deposit with the Bank such sum or security or further sum or security as the Bank may from time to time specify as security for the due fulfillment of their obligations under this Guarantee and any security of deposited with the Bank may be sold by the Bank after giving to the Guarantors a reasonable notice of sales and the said sum or the proceeds of sale of the securities may be appropriated by the Bank in or towards satisfaction of the said obligations and any liability arising out of non-fulfillment thereof by the Guarantors.
14. The Guarantors hereby agree that notwithstanding any variation made in the terms of the said Agreement of loan and / or any of the said security documents including reallocation / interchange of the individual limits within the principal sum variation in the rate of interest, extension of the date for payment of the installments, if any, or any composition made between the Bank and Borrower to give time to or not to sue the Borrower, or the Bank parting with any of the securities given by the Borrower, the Guarantors shall not be released or discharged of their obligation under this Guarantee provided that in the event of any such variation or composition or agreement the liability of the Guarantors shall not withstanding anything herein contained be deemed to have accrued and the Guarantors shall be deemed to have become liable on the date or dates on which the borrower shall become liable to pay the amount/amounts due under the said Agreement of Loan and/or any of the said security documents as a result of such variation or composition or agreement.
15. The Guarantors hereby agree and confirm that the Bank shall be entitled to adjust appropriate or set-off all monies held by the Bank to the credit of or for the benefit of the Guarantors on any account or otherwise howsoever towards the discharge and satisfaction of the liability of the Guarantors under these presents.
16. The Guarantors agree that notwithstanding the Bank for any reason whatsoever losing and/or parting with any of the securities given by the Borrower the Guarantors shall not be released or discharged of their obligations under this Guarantee and in the event of the Bank so losing or parting with a security the guarantor shall be deemed to have consented to or acquiesced in the same.
17. The Guarantors agree that if the Borrower being an individual becomes an insolvent or being a company enters into liquidation or winding up (whether compulsory or voluntary) or if the management of the undertaking of the Borrower is taken over under any law or if the Borrower and/or the undertaking of the Borrower is nationalized under any law or make any arrangement or composition with creditors the Bank may (notwithstanding payment to the Bank by the Guarantors or any other person of the whole or any part of the amount hereby secured) rank as creditor and prove against the estate of the Borrower for the full amount of all the Bank's claims against the borrower or agree to and accept any composition in respect thereof and the Bank may receive and retain the whole of the dividends, composition or other payments thereon to the exclusion of 'all the rights of the Guarantors in competition with Bank until all the Bank's claims are fully satisfied and the Guarantors will not be paying off the amounts payable by them or any

part thereof or otherwise prove or claim against the estate of the Borrower until the whole of the Bank's claims against the Borrower have been satisfied and the Bank may enforce and recover payment from the Guarantors of the full amount payable by the Guarantors notwithstanding any such proof or composition as aforesaid. On the happening of any of the aforesaid events, the Guarantors shall forthwith inform the Bank in writing of the same.

18. The Guarantee hereby given is independent and distinct from any security that the Bank has taken or may take in any manner whatsoever whether it be by way of hypothecation pledge and/or mortgage and /or any other charge over goods, movables or other assets and/or any other property movable or immovable and that the Guarantors have not given this guarantee upon any understanding faith or belief that the Bank has taken and/or may hereafter take any or other such security and that notwithstanding the provisions of Sections 140 and 141 of the Indian Contract Act, 1872 or other section of that Act or any other law, the guarantors will not claim to be discharged to any extent because of the bank's failure to take nay or other such security or in requiring or obtaining any or other such security or losing for any reason whatsoever including reasons attributable to its defaults and negligence benefit of any or other such security or any of rights to any or other such security that have been or could have been taken.
19. The Guarantors agree that any admission or acknowledgement in writing signed by the Borrower of the liability or indebtedness of the Borrower or otherwise in relation to the above mentioned credit facilities and or any part payment as may be made by the Borrower towards the Principal, sum hereby guaranteed or any judgement, award or order obtained by the Bank against the Borrower shall be binding on the Guarantors and the Guarantors accent the correctness of any statement of account that may be served on the Borrower which is duly certified by any Officer of the Bank and the same shall be binding and conclusive as against the Guarantors also and the Guarantors further agree that in the Borrower making an acknowledgement or making a payment the-Borrower shall in addition to his personal capacity be deemed to act as the Guarantors duly authorised agent in that behalf for the purposes of Sections 18 and 19 of the Limitation Act of 1963.
20. The Guarantors agree that amount due under or in respect of the aforesaid credit facilities and hereby guaranteed shall be payable to the Bank on the Bank serving the Guarantors with a notice requiring payment of the amount and such notice shall be deemed to have been served on the Guarantors either by actual delivery thereof to the Guarantors or by despatch thereof by Registered Post or Certificate of Posting to the Guarantors address herein given or any other address in India to which, the Guarantors may by written intimation give to the Bank or request that communication addressed to the Guarantors be despatched. Any notice despatched by the Bank by Registered Post or Certificate of Posting to the address to which it is required to be despatched under this clause shall he deemed to have been duly served on the Guarantors four days after the date of posting thereof, and shall be sufficient if signed by any officer of the Bank and in proving such service it shall be sufficient if it is established that the envelope containing such notice communication or demand was properly addressed and put into the post office.

IN WITNESS WHEREOF, the Guarantors have executed these presents the day and year first hereinabove written.

Signed Sealed and Delivered by

LOAN DOC - 11

To be stamped as agreement

(Not to be witnessed)

Only to be pasted
Photograph of the guarantor. To
be signed by the guarantor as
well as by the Manager/Sr.
Manager/Chief
Manager/Assistant General
Manager, across the
photograph

AGREEMENT OF GUARANTEE

This Agreement of Guarantee is made on this day of Month, (year) between Oriental Bank of Commerce, a body corporate, constituted under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act No. 40 of 1980, having its Head Office at E-Block, Harsha Bhawan, Connaught Place, New Delhi-110001 and one of its branches, a branch at **Mid Corporate Branch, Tatyapara Chowk, G.E. Road, Raipur** (hereinafter referred to as "The BANK") of the First part.

AND

M/s. The Government of Chhattisgarh, represented by Special Secretary, Government of Chhattisgarh, having its office at URJA VIBHAG, MAHANADI BHAWAN, MANTRALAYA, ATAL NAGAR, NAVA RAIPUR by virtue of guarantee order dated..... issued by the Government of Chhattisgarh. (hereinafter referred to as "The GUARANTOR") of the Second part.

Note : The expression "The GAURANTOR" & "The Bank", unless repugnant to the context, shall include their legal heirs, assigns, nominees, executors, administrators & successors and HUF/joint family shall include and mean all its co-parceners.

WHEREAS the Bank has allowed/agreed to allow/continue to allow the financial assistance of **Rs. 50,00,00,000/- (Rupees Fifty crore only)** (Total amount of limits/financial assistance/loan facility) to **M/s. CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LTD.** (hereinafter referred as The Borrower) as per schedule - I to this guarantee agreement, - including renewals, adhoc-enhancements/regular enhancements thereof from time to time, or otherwise to obtain assistance from and incur liability and obligation, repayable to Bank with interest, costs, fees, expenses and other usual Bank charges, in respect of the aforesaid credit facilities /loan account, as per agreement with the Borrower and other documents / papers signed by the Borrower.

Whereas the Guarantor has agreed to guarantee/continue guarantee jointly and severally, at the request of the Borrower, for the repayment of the amount/sum due/outstanding to the Bank in the loan account of the Borrower in respect of the credit facilities/financial assistance (as per schedule-1 to

this guarantee) together with interest, charges, expenses, incidental charges, fees and costs including out of pocket expenses etc. as agreed by the Borrower with the Bank.

In consideration of having allowed/to be allowed/continue to allow the above mentioned loan amount as per details in scheduled to this agreement to be borrower, including renewals, adhoc enhancements/regular enhancements there of from time to time, or otherwise to obtain assistance from and incur liability and obligation. The Guarantor hereby agrees with the Bank as under:-

1. That any type of admission or acknowledgement or confirmation in writing by the Borrower of the amount due to the Bank/the amount of the indebtedness by the Borrower or otherwise in relation to the subject matter of this guarantee or any judgment or award obtained by bank against the Borrower shall be binding upon the Guarantor and the Guarantor hereby unconditionally and unequivocally accepts the correctness of statement of accounts of the due/loan accounts of the Borrower, duly signed by, the authorised person/office of the Bank, and the same shall be binding upon and conclusive proof against guarantor. The Guarantor further agrees that in making such admission or acknowledgement or confirmation in writing by the Borrower of the sum due/ outstanding to the Bank/the amount of the indebtedness by the Borrower or otherwise in making any payment by the Borrower or on behalf of the Borrower, the Borrower shall be treated as his duty authorised agent/attorney for the purpose of Limitation Act 1963. In other terms the Guarantor authorises and empowers the Borrower or any person on behalf of the Borrower and also each of the Co-Guarantor as agent and attorney to acknowledge, confirm and admit the balance due in the account on his behalf as Guarantor from time to time. The Guarantor agree that any acknowledgement and confirmation of liability / debt / sum due to Bank, made by Borrower or any person on behalf of the Borrower on any of the Co-Guarantor shall be binding on the Guarantor as acknowledgement and confirmation of liability and debt for giving fresh start of limitation and also for admission of liability against the Guarantor.
2. That in the event of death of guarantor, the guarantee shall remain in full force until written notice of death is delivered to the Bank and all estate and effects of guarantor shall be liable under this guarantee for all advances made and credit facilities given by the Bank to the Borrower even after death of Guarantor but before delivery of aforesaid notice as well as for all advance(s) made and credit facilities given before the death of Guarantor.
3. That the Guarantor hereby agrees that this guarantee shall be a continuing guarantee and his liability shall be co-extensive and continuing with the liability of the borrower and the liability of the Guarantor and the borrower shall be joint and several and shall remain operative in respect of each of the mentioned financial limit/loan account/credit facility and shall be enforced as such at the discretion of the Bank without affecting the other guaranteed loan account as if each of the loan facilities, limits/loan account had been guaranteed by him/them. This guarantee shall not be considered as cancelled or/terminated or in any way affected by the fact that at any time or from time to time any of the said loan account may show no liability/sum due/debt against the Borrower or may even show credit balance in the loan account of the Borrower but the guarantee and the securities, if any furnished by the Guarantor shall continue and remain in operation in respect of all subsequent transactions in the loan account till the loan account/debt/sum due recoverable from

the borrower are fully adjusted and liquidated by or on behalf of the Borrower and no dues certificate in the loan account is issued by the Bank subsequent to the same to the borrower.

That the Guarantor hereby agrees that in case of Bank guarantee/financial guarantee/performance guarantee or liability and obligation arising out of the happening of certain event as the case may be, and in case of invocation or demand by the beneficiary from the Bank under the said loan facility/limit, this guarantee agreement shall come into force and effective from the date of demand from the Bank and in case the bank makes the payment to the beneficiary on account of the Borrower, from the date of making the payment to the beneficiary by the Bank.

4. That in consideration of the loan facilities allowed or agreed to be allowed/continued to be allowed as per Schedule-I to this agreement to the borrower, the Guarantor hereby undertake jointly and severally to pay the Bank on demand unconditionally and without demur notwithstanding any dispute between the Bank and the Borrower, of any kind whatsoever, principal, all interest, costs, all charges and expenses, due and which may at any time become due to the Bank from the Borrower in the account of the Borrower in the loan account/credit facilities up till the date of payment in amount of all liabilities, indebtedness/sum due arising out of or in respect of any of the credit facilities/limits/loan facility and also all losses, damages, costs, charges, commission charges, and expenses and all legal costs/charges as between attorney and client occasioned to the Bank by reason of omission, failure or any default or any breach of or otherwise in such payment/dues by the Borrower or Guarantor or any of them including costs and charges as aforesaid, of enforcement or attempted or attempted enforcement of payment by suit or otherwise or for sale or realisation or any attempted sale or realisation of any security or otherwise or any costs, charges and expenses which the Bank may incur by being impleaded & joined in any proceeding, before any court of law or any authority under any law for the time being in force to which the Bank may be made a party or may make itself party either with or without other in connection with any of the loan accounts of securities or any proceeds thereof.
5. That in the event of payment/adjustment/Liquidation of the dues of the Bank by the Borrower and consequently the Bank discharges the Guarantor from all liabilities under this guarantee, but later on the visibility to the borrower is determined by any court/tribunal or any authority or otherwise for the time being in force that the said payment/adjustment/liquidation was inadequate or fraudulent transaction/preference and the Bank is made to pay further/refund the amount so received towards the adjustment/liquidation in the loan account, the liability to the Bank on the basis of this guarantee shall revive to the same extent and in the manner as if such payment had never been made.
6. That in case of the Bank sells the pledged or hypothecated or mortgaged securities or all these securities held in the loan account of Borrower, the Guarantor agrees that he shall not question or dispute or challenge the sale or the sale price in any manner or on any ground whatsoever and that his liability towards the bank shall remain unaffected notwithstanding any dispute or objection regarding the sale of the securities or mortgaged properties belonging to guarantor/co-Guarantor or belonging to the Borrower towards the adjustment/liquidation of the sum due recoverable from the borrower by the Bank in the loan accounts. The Guarantor further agrees that the bank shall in no

way or in any manner responsible or liable for the safe custody, preservation, maintenance, service and/or due care etc. of the securities and the guarantor shall not raise any objection whatsoever on this account and the liability and obligations of the guarantors to the bank shall remain continue till the adjustment/liquidation of the entire dues/sum outstanding towards the bank.

7. That the Guarantor also agrees that the bank shall be fully entitled to recover its entire sum due/ outstanding, in the accounts as per schedule-I from him personally or his securities or properties and assets belonging to him, upon any default of payment of sum due by the Borrower and or from any type of default, in the terms and conditions of the agreement with the borrower, by the borrower and thus the Bank may enforce the guarantee without first taking any recourse against the Borrower or without enforcing, selling or realising any of the securities kept under their lien, charge, pledged, hypothecated or mortgages with it, notwithstanding that any bills or other instruments delivered by Borrower in the said loan account may be in circulation for collection and outstanding.
8. That it is undertaken by Guarantor that in case the guarantor takes any security/securities from the Borrower in respect of his liability under this guarantee, the Guarantor will not prove in liquidation of the Borrower in respect thereof to the prejudice to the bank and such security shall be the security of the Bank.
9. The Bank shall have lien, charge and right to set off on all monies standing to the credit of Guarantor in any account at any branch of the Bank including the margin money if any, and on any securities in the hand of the Bank belonging to the Guarantor and the bank shall be entitled to appropriate/set off/realise the balance and enforce the securities.
10. That the Guarantor hereby gives unequivocal and unconditional consent to the Bank for renewing/ and or reducing from time to time the loan limit allowed or to be allowed to the Borrower obtaining fresh documents from them, closing the existing loan account, opening new account for existing/ enhanced limit/amount/facility, or transferring the same or part thereof to any branch of the Bank. Notwithstanding this, Guarantor agrees that he shall remain and continue to be liable to the Bank for any indebtedness of the Borrower under the renewed/and or reduced loan limit/amount/facility of the Borrower and terms, conditions provisions of clauses of this guarantee shall apply and govern their liability under the renewed/reduce limits/amount/facility.
11. That the Guarantor further agrees that any account settled between the Bank and the Borrower or the balance outstanding/sum due/debt admitted or confirmed or acknowledged by Borrower or his/ their agents as due in the said loan account to the Bank shall be conclusive proof and shall not be disputed or questioned or challenged by the Guarantor.
12. That the guarantor hereby consents to the bank for making any variance without reference or notice to him, that it may think fit in the terms of contract/agreement. Including any change in rate of interest charged to the account with the Borrower. The Guarantor further gives consent to the Bank for accepting additional collateral security of any kind, determining, enlarging or giving any permission varying any credit to the Borrower or making any composition/compromise settlement with the Borrower or any of them promising to be given Borrower time or other indulgence or not sue him/them or the Bank/parting with any security it may hold for the guaranteed financial limit/ account/amount. The Guarantor also agrees that he/they shall not be discharged from his/their liability upon the Bank releasing the Borrower or by any action or omission by the Bank the legal consequences of which may be to discharge the borrower or by any act of the Bank which would but

for this provision be inconsistent with his/their rights as Guarantor. Though the second party herein is a Guarantor vis-a-vis the Borrower, the Guarantor agrees that vis-a-vis the Bank, he is a debtor jointly and severally with the Borrower and the Guarantor shall not as such be entitled to claim the benefit of legal consequences of any variation in the terms of the agreement/contract with the Borrower and to any of the rights conferred on Guarantor by section 133, 135 and 141 of the Indian Contract Act 1872. The Guarantor further agrees that the acceptance by the Bank of any irregular payment or any amount short of the amount of agreed installment whether made before or on due dates or thereafter by the borrower shall not discharge Guarantor from his liability and such acceptance will not amount to or create any new or fresh contract. The Guarantor further agree that the Bank shall be under no obligation to notify him/them of any default committed by Borrower at any time or from time to time. The Guarantor is not entitled to give any instruction to the Bank in the matter of operation of any guaranteed account/loan account/sum due recoverable from the borrower or disposal or sale of securities, if any, held by the Bank.

13. That the liability of Guarantor shall not extinguish or come to an end by the mere fact that his/their names is / are not mentioned / written in the sanction letter by the Bank or letter of request by the Borrower.
14. That the absence or infirmity in the borrowing powers on the part of the Borrower or any irregularity whatsoever in the exercise thereof shall not effect the liability of Guarantor and any monies advanced to the Borrower shall be deemed to be due and owing notwithstanding such absence, infirmity or irregularity and this Guarantee shall not be affected by any change in the name or constitution of the Borrower and/or the Guarantor. It is further expressly agreed that this guarantee shall remain enforceable against the Guarantor irrespective of the fact whether the contract/ agreement between the Borrower and the Bank is enforceable at law/court or not. It is expressly agreed that in case the liability of the Borrower is scaled down under any law or becomes time barred or the Borrower goes into liquidation or are declared insolvent, the guarantee given hereunder be enforced against the Guarantor and the Guarantor further agrees and undertakes to identify and reimburse the Bank for any loss, damages, cost, expenses, fees and other usual Bank charges, which the Bank may have to recover and realise from the Borrower in his accounts.
15. That the Guarantor further agrees that all dividends, compositions or payment received by the Bank from Borrower or any other person or persons liable to him or his or their representatives shall be taken and applied as payment by the borrower and the Guarantor and or his representatives shall have no right to claim the benefit of any such dividends, compositions or payment until full amount of all claims of the Bank against the Borrower or his representatives which are covered by this guarantee have been paid.
16. That it is agreed by Guarantor that his liability in the loan accounts will not extinguish or come to an end or terminate merely because the Bank may allow the Borrower over and above the sanctioned or existing limit in loan accounts or the Borrower exceeds the drawing power or vary the terms and conditions of the operation of the loan accounts. This guarantee shall also not extinguish or come to an end or terminate for the reason that the Bank has not obtained fresh guarantee from the present guarantor in addition to other guarantee obtained and fresh loaning documents/agreement/contract with the borrower, as the case may be, shall continue to operate and subsisting.

17. That in case of pledge of goods/movable assets by the Guarantor with the bank, the movable assets so pledged/charged, as securities, by Guarantor in consideration of the loan facility/limits disbursed/paid/to be paid/dispensed to the Borrower, and in case of pledge of shares, at present or future, all such type of shares including bonus shares or any other shares including any type of certificates like debentures/preference shares, D-mat shares, etc. issued at present or subsequent to the pledge, margin money by way of Certificate of deposit Receipts/Fixed deposit receipts or debenture, certificate of deposits of any type and nature whatsoever which Guarantor has pledged be way of actual or constructive possession, in consideration of the financial/loan facility/amount to the Borrower for the due repayment to the bank on demand all types of loan amount/facility/ sum due recoverable from the borrower or which hereinafter may become due from Borrower to the bank, as well as for interest there on at the rate charged by the Bank, all costs including legal charges, expenses, inspection charges, fees, commission charges, other charges, transfer charges, and charges if all types of securities, shares with transfer deeds duly signed by the Borrower, deposited with the Bank/already deposited with the Bank, or which may be in the possession of the Bank on behalf of the Borrower or which may hereafter come into the possession of the Bank, subsequent addition or escalation or accretion on any type of security, whether in cash or otherwise, shall continue to remain charged, with the Bank and the Bank shall have the right to sell, transfer, appropriate or otherwise deal in any manner whatsoever and appropriate and adjust towards the satisfaction or dues including interest, cost, expenses, fees and other usual Bank charges etc. in the loan accounts of the borrower.
18. That in case the bank transferees the loan account of the Borrower with or without securities, to any of its branch, the Guarantor shall not object or question or challenge to the act of the Bank and it will not be binding upon the Bank to give any notice to the Guarantor to this effect.
19. That the Bank shall have all rights, powers, and authority by virtue of this Guarantee agreement to adjust, right of set-off, liquidate the accounts of the Borrower out of any amounts lying in the name of the Guarantor with the Bank or any of its branch and the Guarantor shall not question or object or challenge the act of the Bank.
20. That the Bank shall have all power and authority to proceed against the guarantor for the recovery of the amount outstanding/debt/Sum due recoverable from the borrower by the Bank notwithstanding the fact and 'position that the Bank cannot proceed or take steps against the borrower by virtue of the provisions of law for the time being in force or by virtue to the order of any Tribunal/Court/ authority for the time being in force and the guarantor shall not question or object to or challenge or dispute such action of the Bank before any court/Tribunal/authority under law for the time being in force.
21. That as aforesaid, the rate of interest payable by the borrower shall be subject to change from time to time as per Prime Lending rate/Reserve Bank of India instruction/Bank internal guidelines as per the term and conditions of the agreement with the borrower and thus it is specifically agreed between the parties that no notice of any kind whatsoever regarding the said change/variation need to be given by the Bank to the Guarantor and/or Borrower.
22. That the Guarantor has represented, assured, declared and undertaken to the Bank that the financial assistance/credit facility raised/availed or to be raised/availed by the borrower from the

Bank and lien & charge created hereby, is being done by duly authorised, empowered person/partner/director/member/coparcener of the Guarantor.

23. That this agreement constitutes an exclusive and irrevocable agreement between the Bank and the Guarantor with respect to the subject matter/schedules hereof.
24. That it is specifically agreed that none of the provisions of this agreement shall be deemed to have been waived by any act of or acquiescence on part of the Bank, its employees, official or agent, but only by an instrument in writing signed by an authorised and empowered officer of the Bank. No waiver of any provision of this agreement shall constitute a waiver of any other provision or of the same provision on another occasion.
25. That is also agreed that except as otherwise provided herein, if any provision of this agreements shall be held by a Court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions and clauses shall remain in full force and effect.
26. That in case of partnership firm, this agreement of continuing Guarantee is being signed by partners in their capacity as partners as well as their individual capacity and they shall be liable for debts/amount due from the firm/borrower to the full extent of their all present and future assets.
27. That it is declared by the Guarantor that his/her name or name of his firm/Company/Trust/Society, where his/her name is directly or indirectly related, does not appear in the defaulters list issued by the Reserve Bank of India or "That as a precondition, relating to the grant and/or allowing of the loan/advances/other non-fund based credit facility to the borrower and furnishing his guarantee thereto, the bank is authorised and empowered to disclose as it may deem appropriate and necessary to disclose, furnish and notify the name of the guarantor including borrower to Reserve Bank of India, Credit Information Bureau (India) Ltd., (in short referred as CIBIL) or any other agency authorised in this behalf by Reserve Bank of India or any other authority for the time being in force regarding (a) information and data relating to the borrower(b) the information or data relating to the borrower, obligations iii any credit facility granted and/or to be granted by the bank and guaranteed by guarantor and (c) default, if any, committed by the guarantor and/or borrower in discharge of such obligation/liability towards the repayment of the bank dues and other covenants as agreed with the bank. It is further declared that the information and data provided and furnished by the guarantor to the bank is true and correct. It is further agreed and undertaken that CIBIL and any other agency so authorised by Reserve Bank of India and/or by the bank and/or any other statutory authority for the time being in force, may use, process, the said information and the data disclosed by the bank in the manner as deem fit and proper. Further to this, CIBIL and any other agency so authorised by Reserve Bank of India and/or by the bank and/or other statutory authority for the time being in force, may furnish for consideration the processed information and data or products thereof prepared by them to the other bank(s) and/or Financial institution(s) and/or other credit agencies/granters and/or registered users, as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time in this behalf."
28. Notwithstanding anything contained in this Guarantee agreement, the liability of the Guarantor will not come to an end or extinguish, unless the Bank gives the notice of the same in writing to the Guarantor.
29. That the words denoting singular in this agreement include plural and vice versa.
30. Any notice by the Bank in writing under this guarantee or demand in writing shall be deemed to have been duly served to the Guarantor, in case it is sent by post addressed to him at the address hereunder written and shall be effectual notwithstanding the death or the change of address, unless intimated by the guarantor to the Bank in writing, and in case it is sent by electronic mail or facsimile transmission upon the sending of the notice and upon the confirmation report.

Place

(Signature of the Guarantor)

Date

Name.....

Address

For Oriental Bank of Commerce

(Signature)

.....Name

Manager/Senior Manager/Chief Manager/Asstt. General Manager

SCHEDULE-I L O AGREEMENT OF GUARANTEE

Particulars	Amount (Rs.)	
	Limit	Sub-Limit
(i) Cash credit/overdraft	Rs.50 crore	
(ii) Doc. Demand Bills		
(iii) Doc. Usance Bills		
(iv) Cheque/bills Purchase		
(v) Clean demand draft		
(vi) Packing Credit facility		
(vii) FDBP/FUDBP Limit		
(viii) Letter of Credit (Inland/foreign		
(ix) Demand		
(x) Term loan		
(xi) Bank Guarantee/financial guarantee/performance guarantee.		
(xii) Any other facility i.e		

(Signature of the Guarantor)

Place

Name

Date

Address

For Oriental Bank of Commerce

(Signature)

Manager/Senior Manager/Chief Manager/Asstt. General Manager

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

[नियम 19(2) देखिए]

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2017-2018.—भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम मरेठा, तहसील बकावण्ड की नीजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र.	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें.
(1)	(2)	(3)
1.	विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था.	लागू नहीं होता.
2.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-8-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची "दो" की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
5.	विस्थापित कुटुंबों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
6.	विस्थापित कुटुंबों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
7.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
8.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तदनुसार आज दिनांक को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2019

[नियम 19(2) देखिये]

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2017-2018.—भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(2) के तहत यह घोषित किया जाता है कि ग्राम भेजापदर, प.ह.नं. 28, तहसील जगदलपुर (जिला बस्तर) की नीजी भूमि अर्जन से प्रभावित खातेदार/परिवार को निम्नानुसार पुनर्वास लाभ प्राप्त होंगे.

क्र.	पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के अवयव	क्या उपलब्ध कराया गया है. यदि उपलब्ध कराया गया है तो ब्यौरा दें
(1)	(2)	(3)

1. विस्थापन की दशा में मकान इकाइयों की व्यवस्था. लागू नहीं होता.

(1)	(2)	(3)
2.	भूमि के लिए भूमि	लागू नहीं होता.
3.	विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना	लागू नहीं होता.
4.	वार्षिक या नियोजन का विकल्प	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश क्रमांक एफ-7-4/सात-1/2015/दिनांक 29-8-2016 में निहित निर्देश/प्रावधान अनुसार भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो की कण्डिका-4 का लाभ पात्र प्रभावित खातेदार/परिवार को प्राप्त होगा.
5.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए एक वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान.	लागू नहीं होता.
6.	विस्थापित कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च	लागू नहीं होता.
7.	पशु बाड़ा/छोटी दुकान खर्च	लागू नहीं होता.
8.	कारीगरों छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बार अनुदान.	लागू नहीं होता.
9.	मछली पकड़ने का अधिकार	लागू नहीं होता.
10.	एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता	लागू नहीं होता.
11.	स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस	लागू नहीं होता.

2. तदनुसार आज दिनांक सितम्बर 2019 को यह घोषणा पत्र जारी किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अय्याज तम्बोली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्रमांक/289/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	रैमुड़ा प.ह.नं. 09	1.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 17 सितम्बर 2019

क्रमांक/290/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	महासमुंद	अचानकपुर प.ह.नं. 09	6.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्रमांक/17574/भू-अर्जन/16 अ 82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	जोगीपाली प.ह.नं. 36	1.476	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, कोरबा.	रामपुर - जोगीपाली - मदवानी मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 सितम्बर 2019

क्रमांक/18050/भू-अर्जन/04/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बतरा प.ह.नं. 13	4.43	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	खारून व्यपवर्तन योजना के बांयी तट नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 18 सितम्बर 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2017-18.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ द्वारा ग्राम-दनौट, प.ह.नं.-32, तहसील रायगढ़ व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.356 हे. केलो परियोजना के बांध अंतर्गत डूबान क्षेत्र हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-11 (1) की अधिसूचना तथा धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 18-05-2018 तथा दिनांक 19-10-2018 को कराया गया है.

चूँकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-93 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-दनौट		
क्र.	ख.नं.	रकबा
1.	14/1	0.122
कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.122 हे.		

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का व्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 16 सितम्बर 2019

क्रमांक/क/भू-अर्जन/16/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-बकावण्ड
(ग) नगर/ग्राम-मरेठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
436	0.06
264	0.06
434	0.04
413	0.26
412	0.15
410	0.04
414	0.01
409	0.52
432	0.04
योग	1.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरेठा-सोरगुडा मार्ग के कि.मी. 2/2 में मारकण्डी नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 25 सितम्बर 2019

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-भेजापदर, प.ह.नं. 01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181	0.05
185	0.05
279	0.05
183	0.08
184	0.07
177	0.25
199	0.02
186	0.04
280	0.03
194	0.03
179	0.07
178	0.08
275/1	0.04
275/2	0.04
274	0.02
641/274	0.03
488/1	0.03
488/2	0.02
489/1	0.05
489/2	0.02
191	0.01
198	0.02
200	0.02
243	0.03
योग	1.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगरनार-भेजापदर से बोरगांव मार्ग के कि.मी. 1/3 में इन्द्रावती नदी में सेतु के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-दुर्गकोंदल
- (ग) नगर/ग्राम-भुस्की
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अध्याज तंबोली, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56	0.40
योग	01 0.40

कांकेर, दिनांक 11 अक्टूबर 2019

क्रमांक/7745/वा./भू.अ./प्र.क्र./1/अ-82/2016-17.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम-भुस्की में पुलिस अधीक्षक कांकेर द्वारा बी.एस.एफ. कैम्प की सुरक्षा हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 1 अक्टूबर 2019

क्रमांक 278/क/वित्त-स्था./2019.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 724/क/वित्त-स्था./2018, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के द्वारा गणेश चतुर्थी हेतु दिनांक 02 सितम्बर, 2019 दिन सोमवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2009/1/5/1825 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06 जुलाई, 2019 द्वारा “हरितालिका तीज” पर्व के लिए दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को सामान्य अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप गणेश चतुर्थी हेतु दिनांक 02-09-2019 को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाता है.

सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला महासमुन्द के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए “भाई दूज” दिनांक “29 अक्टूबर, 2019 दिन मंगलवार” को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

हस्ता./-
अपर कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th July 2019

No. 7798/Checker/III-6-1/2007 (Pt.I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Deepak Kumar Sharma, J.M.S.C., Rajnandgaon Presently posted at Raipur.	Raipur	Raipur
2.	Ku. Priya Rajak, J.M.S.C. Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon
3.	Shri Alok Kumar Agrawal, J.M.S.C., Rajnandgaon		
4.	Shri Ravi Kumar Mahobia, J.M.S.C., Raigarh	Raigarh	Raigarh
5.	Ku. Akansha Beck, J.M.S.C., Raigarh		
6.	Ku. Gayatri Sai, J.M.S.C., Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)
7.	Ku. Ranju Vaishnav, J.M.S.C., Ambikapur		
8.	Shri Nilesh Jagdalla, J.M.S.C., Ambikapur		
9.	Ku. Satpreet Kour Chhabra, J.M.S.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
10.	Ku. Shweta Patel, J.M.S.C., Bilaspur		
11.	Shri Dwijendra Nath Thakur, J.M.S.C., Bilaspur		
12.	Shri Prateek Tembhurkar, J.M.S.C., Bilaspur		
13.	Shri Suresh Toppo, J.M.S.C., Baikunthpur	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)
14.	Shri Narendra Kumar Tendulkar, J.M.S.C., Kawardha	Kawardha	Kabirdham
15.	Ku. Ruchi Mishra, J.M.S.C., Durg	Durg	Durg
16.	Ku. Ankita Kaushik, J.M.S.C., Durg		
17.	Shri Rajat Kumar Nirala, J.M.S.C., Durg		
18.	Shri Vivek Kerketta, J.M.S.C., Durg		
19.	Ku. Ankita Kashyap, J.M.S.C., Durg		
20.	Shri Prashant Kumar Dewangan, J.M.S.C., Durg		
21.	Ku. Akanksha Saxena, J.M.S.C., Durg		
22.	Ku. Ankita Madanlal Gupta. J.M.S.C., Balodabazar	Balodabazar	Balodabazar

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th July 2019

No. 7800/Checker/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Abhinav Dahariya, J.M.F.C., Dhamtari Presently posted at Bilaspur.	Bilaspur	Bilaspur
2.	Ku. Shweta Goswami, J.M.F.C., Dhamtari	Dhamtari	Dhamtari
3.	Shri Rahul Kumar, J.M.F.C., Dhamtari		
4.	Shri Ravi Kumar Mahobia, J.M.F.C., Raigarh	Raigarh	Raigarh
5.	Ku. Akansha Beck. J.M.F.C., Raigarh		
6.	Shri Alok Pandey J.M.F.C., Surajpur	Surajpur	Surajpur
7.	Shri Suresh Toppo, J.M.F.C., Baikunthpur	Baikunthpur	Koria (Baikunthpur)
8.	Shri Narendra Kumar Tendulkar, J.M.F.C., Kawardha	Kawardha	Kawardha
9.	Ku. Ruchi Mishra, J.M.F.C., Durg	Durg	Durg
10.	Ku. Ankita Kaushik, J.M.F.C., Durg		
11.	Shri Rajat Kumar Nirala, J.M.F.C., Durg		
12.	Shri Vivek Kerketta, J.M.F.C., Durg		
13.	Shri Ankita Kashyap, J.M.F.C., Durg		
14.	Shri Prashant Kumar Dewangan, J.M.F.C., Durg		
15.	Ku. Akanksha Saxena, J.M.F.C., Durg	Balodabazar	Balodabazar
16.	Ku. Ankita Madanlal Gupta, J.M.F.C., Balodabazar		

By order of Hon'ble the Chief Justice,
Deepak Kumar Tiwari, I/c Registrar General.